

B-3

L-4

Economy

दिनांक
1/02/24

(iv)

$NNP_{Fc} \Rightarrow$ Net National Product of Factor cost

साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद

$NNP_{mp} -$ Indirect Taxes + subsidy (अप्रत्यक्ष कर)
 $\rightarrow$ सहायिकी)

At market Price (बाजार कीमत पर)

या (or)

$NNP_{mp} -$ Net Indirect Taxes

(Indirect Taxes - subsidy)

(v) $PCI \Rightarrow$ Per Capita Income (प्रति व्यक्ति आय)

$NI = \frac{GDP}{Population}$

(vi) Real GDP, GNP etc :-

यदि GDP, GNP आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक (Real) शब्द का प्रयोग किया जाता है।
आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग मूल्यों को स्थिर करने के लिए किया जाता है।

आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है।

Note:-

वर्तमान में भारत में २०११-१२ को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है (२०१५) से

Example- २०२२-२३

Quantity (मात्रा)	Price	2011-12 ₹ GDP
10	10	= 100
	5	= 50
10	20	= 200
2023-24	5	= 50

vii) Nominal GDP, GNP etc

यदि GDP, GNP आदि को चालू / प्रचलित मूल्यों पर निकला जाता है तो उनके आगे Nominal शब्द का प्रयोग किया जाता है।